



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 2017/फाल्गुन 17, 1938

No. 693]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 2017/PHALGUNA 17, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017

का.आ. 770(अ).—केंद्रीय सरकार भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद से परामर्श के पश्चात् उक्त अधिनियम को प्रथम अनुसूची में संशोधन करने के लिए और निम्नांकित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, क्रम संख्या 80, स्तंभ 1 उपर्युक्त “उपाधियों” के अधीन “नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान की विश्वविद्यालय, जबलपुर” प्रविष्टियों के लिए “नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर” प्रविष्टियों अन्तःस्थापित की जाएंगी।

[फा. सं. 52-66/2010-एलडीटी (वीसी)]

डॉ. ए. जी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची पश्चात में निम्न अधिसूचना संख्या को द्वारा संशोधित की गई थी-

1. का.आ. 2841(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 1990
2. का.आ. 823(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1993
3. का.आ. 1165(अ), तारीख 4 अप्रैल, 1995
4. का.आ. 3252(अ), तारीख 13 नवम्बर, 1995
5. का.आ. 1411(अ), तारीख 19 अप्रैल, 1996
6. का.आ. 268(अ), तारीख 28 जनवरी, 1997
7. का.आ. 2082(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 1998
8. का.आ. 33(अ), तारीख 12 जनवरी, 2000
9. का.आ. 122(अ), तारीख 13 फरवरी, 2001
10. का.आ. 342(अ), तारीख 28 मार्च, 2002
11. का.आ. 791(अ), तारीख 25 जुलाई, 2002
12. का.आ. 836(अ), तारीख 8 अगस्त, 2002
13. का.आ. 1231(अ), तारीख 26 नवम्बर, 2002
14. का.आ. 1371(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2002
15. का.आ. 323(अ), तारीख 26 मार्च, 2003
16. का.आ. 868(अ), तारीख 31 जुलाई, 2003
17. का.आ. 1226(अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2003
18. का.आ. 34(अ), तारीख 12 जनवरी, 2006
19. का.आ. 1442(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2006
20. का.आ. 81(अ), तारीख 25 जनवरी, 2007
21. का.आ. 1052(अ), तारीख 29 जून, 2007
22. का.आ. 364(अ), तारीख 19 फरवरी, 2008
23. का.आ. 989(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2010
24. का.आ. 570(अ), तारीख 15 मार्च, 2011
25. का.आ. 2315(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2011
26. का.आ. 33(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2012
27. का.आ. 2312(अ), तारीख 29 जुलाई, 2013
28. का.आ. 2662(अ), तारीख 30 अगस्त, 2013
29. का.आ. 1022(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2014
30. का.आ. 2518(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2014
31. का.आ. 3007(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2014
32. का.आ. 3318(अ), तारीख 30
33. का.आ. 577(अ) तारीख 19 फरवरी, 2015
34. का.आ. 2154(अ) तारीख 07 अगस्त, 2015
35. का.आ. 2395(अ) तारीख 03 सितम्बर, 2015
36. का.आ. 3416(अ) तारीख 14 दिसम्बर, 2015
37. का.आ. 1096(अ) तारीख 26 फरवरी, 2016
38. का.आ. 198(अ) तारीख 18 जनवरी, 2017
39. का.आ. 341(अ) तारीख 2 फरवरी, 2017

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2017

**S.O. 770(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government after consulting the Veterinary Council of India hereby makes the following amendment further to amend the First Schedule to the said Act, namely:—

In the First Schedule to the said Act, in column 1 under the subheading “Degrees”, for entries at serial number 80, for the entries “**Nanaji Deshmukh University of Veterinary Sciences, Jabalpur**”, the entries “**Nanaji Deshmukh Veterinary Science University, Jabalpur**” shall be substituted.

[F. No. 52-66/2010-LDT (VC)]

Dr. A. J. V. PRASAD, Jt. Secy.

**Note :** The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was subsequently amended vide notification numbers:

1	S.O. 2841(E) , dated the 12 <sup>th</sup> October, 1990	24	S.O. 570(E), dated the 15 <sup>th</sup> March, 2011
2	S.O. 823(E), dated the 20 <sup>th</sup> April, 1993	25	S.O. 2315(E), dated the 05 <sup>th</sup> October, 2011
3	S.O. 1165(E), dated the 4 <sup>th</sup> April, 1995	26	S.O. 33(E), dated the 28 <sup>th</sup> December, 2012
4	S.O. 3252(E), dated the 13 <sup>th</sup> November, 1995	27	S.O. 2312(E), dated the 29 <sup>th</sup> July, 2013.
5	S.O. 1411(E), dated the 19 <sup>th</sup> April, 1996	28	S.O. 2662(E), dated the 30 <sup>th</sup> August, 2013.
6	S.O. 268(E), dated the 28 <sup>th</sup> January, 1997	29	S.O. 1022(E), dated the 02 <sup>nd</sup> April, 2014.
7	S.O. 2082(E), dated the 15 <sup>th</sup> October, 1998	30	S.O 2518(E), dated the 25 <sup>th</sup> September, 2014
8	S.O. 33(E), dated the 12 <sup>th</sup> January, 2000	31	S.O. 3007(E), dated the 27 <sup>th</sup> November, 2014
9	S.O. 122(E), dated the 13 <sup>th</sup> February, 2001	32	S.O. 3318(E), dated the 30 <sup>th</sup> December, 2014
10	S.O. 342(E), dated the 28 <sup>th</sup> March, 2002	33	S.O. 577(E), dated the 19 <sup>th</sup> February 2015
11	S.O. 791(E), dated the 25 <sup>th</sup> July, 2002	34	S.O. 2154(E), dated the 7 <sup>th</sup> August, 2015
12	S.O. 836(E), dated the 8 <sup>th</sup> August, 2002	35	S.O. 2395(E), dated the 3 <sup>rd</sup> September, 2015
13	S.O. 1231(E), dated the 26 <sup>th</sup> November, 2002	36	S.O. 3416(E), dated 14 <sup>th</sup> December, 2015
14	S.O. 1371(E), dated the 27 <sup>th</sup> December, 2002	37	S.O. 1096(E) dated 26 <sup>th</sup> February, 2016
15	S.O. 323(E),dated the 26 <sup>th</sup> March, 2003	38	S.O. 198(E) dated 18 <sup>th</sup> January, 2017
16	S.O. 868(E), dated the 31 <sup>st</sup> July, 2003	39	S.O. 341(E) dated 2nd February, 2017
17	S.O. 1226(E), dated the 22 <sup>nd</sup> October, 2003		
18	S.O. 34(E), dated the 12 <sup>th</sup> January, 2006		
19	S.O. 1442(E), dated the 6 <sup>th</sup> September, 2006		
20	S.O. 81(E), dated the 25 <sup>th</sup> January, 2007		
21	S.O. 1052(E), dated the 29 <sup>th</sup> June, 2007		
22	S.O. 364(E), dated the 19 <sup>th</sup> February, 2008		
23	S.O. 989(E), dated the 29 <sup>th</sup> April, 2010		